



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 23.02.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 40/2020 धारा 363/366 भादवि0 में वांछित व 15,000/- के इनामिया अभियुक्त भैनु को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत दिनांक 22.02.2021 को थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 40/2020 धारा 363/366 भादवि0 से संबंधित वांछित व 15,000/- रू0 के इनामिया अभियुक्त भैनु पुत्र संतू निवासी कदियापुर थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

थाना भीरा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस बरामद कर अभियुक्त सौकत

अली को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत दिनांक 22.02.21 को थाना भीरा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बस्तौली नहर के पास से अभियुक्त सौकत अली पुत्र साहिबदीन निवासी रणा बाजार कस्बा व थाना भीरा जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिंदा व 01 अदद खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से भी कई अभियोग पंजीकृत हैं।

थाना मितौली पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 23.02.21 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 14/16 धारा 302 भादवि व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट से संबंधित वारंटी अभियुक्त उत्तम पुत्र रामभरोसे निवासी डहर थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मितौली पुलिस द्वारा अ0सं0 125/93 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त नन्हे पुत्र रामकुमार नि0 खुन्दनिया थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मैलानी पुलिस द्वारा अ0सं0 664/12 धारा 376/411 भादवि0 में वारंटी अभियुक्त हरीशचन्द्र पुत्र छेदीलाल नि0 वृन्दावन थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 35 लीटर अवैध कच्ची शराब, 02 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना फूलबेहड़	25 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना भीरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना मैगलगंज	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना मैलानी	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना नीमगांव	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना गोला	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	110 लीटर	08 अभियुक्त गिरफ्तार